

स्टैमफोर्ड (Stamford) अस्पताल ऐसे वित्तीय सहायता कार्यक्रम की पेशकश करता है जो उन पात्र रोगियों की सहायता करता है जो बीमारहित हैं या जिनका कम राशि का बीमा है। वित्तीय सहायता पॉलिसी केवल आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं को कवर करती है जिनमें अस्पताल के कुछ विशेष चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्पताल सेवाएं और कुछ सेवाएं शामिल हैं। अस्पताल इस समुदाय को उसकी भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

### वित्तीय सहायता सामान्य भाषा सारांश

#### वित्तीय सहायता कार्यक्रम (FAP)

वित्तीय मानदंड को पूरा करने के लिए आपके घर की वार्षिक आय वर्तमान संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों के चार गुणा से अधिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।

#### आवेदन कैसे करें:

वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को आवेदन-पत्र भरना होगा।

हमारे वित्तीय सहायता सारांश, वित्तीय सहायता पॉलिसी और आवेदन प्रपत्रों की प्रतियाँ हमारी वेबसाइट

<https://www.stamhealth.org/patients-visitors/fap/> पर उपलब्ध हैं।

आप वित्तीय सहायता नीति की प्रति और आवेदन-पत्र का अनुरोध कर सकते हैं (डाक द्वारा मुफ्त उपलब्ध) या हमारे ग्राहक सेवा विभाग को [CustomerServiceR@stamhealth.org](mailto:CustomerServiceR@stamhealth.org) पर ईमेल भेजकर या (203) 276-7572 पर ग्राहक सेवा को कॉल करके या (203) 276-7093 पर फ़ैक्स भेजकर या व्यक्तिगत रूप से अपने आवेदन-पत्र में सहायता का अनुरोध कर सकते हैं: रोगी वयावसायिक सेवाएं

Stamford Health  
One Hospital Plaza  
Stamford, CT 06902

यदि रोगी अन्य वित्तपोषण स्रोतों या कवरेज जैसे हेल्थ इश्योरेंस एक्सचेंज (QHP), कर्मचारी क्षतिपूर्ति, देयता, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट (MVA) या मेडिकेड (Medicaid) के लिए पात्र हैं लेकिन इन लाभों के लिए आवेदन करने के इच्छुक नहीं हैं या इनकार कर देते हैं, तो FAP आवेदन इनकार किए जा सकते हैं।

हम वित्तीय सहायता पॉलिसी, आवेदन-पत्र और पॉलिसी सारांश को निम्नलिखित भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं:

अनुरोध पर या हमारी वेबसाइट – <https://www.stamhealth.org/patients-visitors/fap/> पर अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी, क्रियोल, फ्रेंच, ग्रीक, हिंदी, इतालवी, पोलिश और रूसी में उपलब्ध है

स्वतंत्र प्रदाता जो संभवतः हमारे वित्तीय सहायता प्रोग्राम में भागीदारी नहीं करते हैं:

कुछ चिकित्सक, क्लीनिशियन या रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थियालॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एम्बुलेंस सेवाएं और कुछ सर्जन जो स्टैमफोर्ड हेल्थ (Stamford Health) में आपकी देखभाल में सहायता करते हैं, संभवतः हमारे वित्तीय सहायता कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। इन प्रदाताओं की सूची के लिए कृपया हमारी FAP पीठि देखें या हमें (203) 276-7572 पर सम्पर्क करें।

#### मुफ्त बेड निधियां:

आप हॉस्पिटल को विशेष उपचारों और विभागों को किए गए दान से मुफ्त बेड निधियां प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं। उपलब्धता निर्धारित करने के लिए आप हमें (203) 276-7572 पर कॉल करें।

#### प्रभार सीमा:

FAP पात्र व्यक्तियों से बीमा कवरेज वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के लिए आम तौर पर बिल की जाने वाली राशियों से अधिक पैसा नहीं लिया जाएगा।